

Date: 11th November, 2020

1) Asst. President, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051	2) The Listing Department, Corporate Relationship Department, BSE Limited, 1 st Floor, New Trading Wing, P.J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001
Scrip ID – ARCHIES	Scrip Code – 532212

Sub: Submission of Newspaper Advertisements

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the Newspaper Advertisements published for the Notice of Board Meeting to be held on 09th November, 2020, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020, in the newspapers, Mint (English Edition) and Hindustan (Hindi Edition) on 30th October, 2020.

You are requested to take the same on records.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Archies Limited


Hitesh Kumar
(Company Secretary & Compliance Officer)



ARCHIES LIMITED

C-113, NARAINA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW DELHI - 110028 (INDIA), CIN : L36999HR1990PLC041175
TEL.: 91-11-41410000, 41412222, Fax : 91-11-41410060, Email : archies@archiesonline.com, Website : www.archiesonline.com
REGISTERED OFFICE : PLOT NO. 191-F, SECTOR- 4, I.M.T. MANESAR, GURUGRAM - 122050, HARYANA (INDIA)


WeWork likely to rethink IPO plan

Will take a call after turning profitable next year: CEO

Madhurma Narayn
madhurma.n@wework.com
BENGALURU

WeWork may revisit its plan for an initial share sale, but only after attaining its target of turning profitable next year, the chief executive officer of the global shared workspace provider said. The comments from Sandeep Mathrani follow the New York-based company's unsuccessful attempt at a share sale last year and the sudden exit of co-founder and former CEO Adam Neumann.

WeWork will achieve by next year occupancy levels of around 60% it has experienced prior to the pandemic, Mathrani told select media in India. "I'm a big believer in one step at a time, so let's hit profitable growth first, and we'll then revisit the IPO plan. The key focus right now is scaling membership. It's an occupancy game at this stage," he said. Mathrani, who joined SoftBank-backed WeWork in February, was brought in to turn around and rebuild the company amid the turmoil caused by covid-19 that upended its business model. Low occupancy levels remain a key concern for shared workspace operators worldwide, as companies allow employees to continue working from home during the pandemic. For WeWork, new leases and higher occupancy levels will be the focus areas, in addition to its larger goal of achieving profit.



WeWork chief executive Sandeep Mathrani.

Expected to grow as firms explore flexible workspaces. "We are seeing large enterprises approaching us. There is a mindset change in traditional companies, and they are looking at flexible space. Our leasing of space to enterprises has shot up from 50% to 60-67% in recent times," Karan Virmani, CEO, WeWork India said. WeWork India has signed several leases with enter-

prise clients in recent months to offer flexible options and value offerings, including new demand and access to space on an hourly or half-hourly basis. "We will achieve occupancy levels of 60% experienced prior to pandemic," says CEO Mathrani. "Profitability for both WeWork and its India unit has been delayed due to covid-19 driven price clients in recent months to offer flexible options and value offerings, including new demand and access to space on an hourly or half-hourly basis."

Govt revises AI sale terms again

Greenish Chandra Prasad
greenish.p@airindia.com
NEW DELHI

The government has revised the terms for selling distressed carrier Air India, shelving the condition that the buyer take on a pre-determined level of debt, civil aviation minister Hardeep Puri said on Thursday. The announcement means bidders can now make an offer based on Air India's enterprise value, plus how much debt they are comfortable with the airline retaining. Officials said the changes do not affect carrier's valuation but offer flexibility. The investor who quotes the highest enterprise value gets the carrier, but up to 85% of the enterprise value can be adjusted against the debt to be retained. The gap between the enterprise value quoted and the debt retained has to be paid in cash, as per changes in the

offer for sale notified by the finance ministry. The move is aimed at making the offer—Air India, its 100% stake in Air India Express Ltd, and 50% in Air India SATS Airport Services Private Ltd—as flexible and market-linked as possible. "After detailed preparations, we revisited this earlier offer (for sale) and it was decided to change the bidding parameters and ask for bids at the enterprise value—that is, bids will be invited on equity and debt basis," Puri said. The government will not pre-determine the level of debt that Air India will carry with the new owner, said Tuhin Kanta Pandey, secretary in the department of investment and public asset management. "That does not mean it is

becoming debt-free. The level of debt that will go with Air India will be determined by the market rather than we determining it. We are doing it because it is an uncertain environment. We are unshackling it (the procedure). Valuation will be determined by the market," he added. Air India chairman and managing director Rajiv Bansal said the current year has been "quite challenging" for the flag carrier which is expected to post a loss of around ₹8,000 crore by the year-end. This will get added to the existing debt. The government had bidden off ₹2,985 crore of 160,000 crore debt Air India had as of 31 March 2019, into a separate company. *Rishi Kundra contributed to this story.*

Be wary of zombie lending: CEA

Shayan Ghosh
shayan.g@nbfci.com
MUMBAI

Indian lenders must closely watch their asset quality to avoid a repetition of the unsustainable lending that occurred following the financial crisis of 2008-2009, said chief economic adviser (CEA) K.V. Subramanian. "One of the other key aspects that must be kept in mind is that forbearance is necessary at this point in time, but the previous episode in 2008-09 illustrates very well the kind of zombie lending that continued, evergreening that happened during that time, which came back to bite three-four years later," said Subramanian. He was speaking at industry body Flex's non-banking financial company (NBFC) Summit on Thursday.



Chief economic adviser K.V. Subramanian.

Zombie lending refers to the practice of providing credit to entities that do not have the capability to repay. While this inflates credit growth, loan defaults haunt financial institutions at a later stage. He said that all financial institutions, and their boards, in particular, should keep a very careful watch on lending. "For instance, lending to firms

TOP STORIES

Offline sales of white goods soar in October

Suneeta Tandon
suneeta.t@wipro.com
NEW DELHI

Demand for washing machines, large refrigerators, mobile phones and small kitchen appliances continued through October, giving makers and retailers of consumer electronics and household appliances reason to believe that they will record growth over the previous festive seasons. The India business of home appliances and consumer electronics company Haier said it expects to post a 35% year-on-year growth in sales in October. Demand for its side-by-side refrigerators touched a record high in September, said Eric

Braganza, president, Haier India. "If you compare just the 10 days of Navratri and Dussehra of last year versus this year, we are up 47%," he said. Consumers who have not faced the economic fallout of the pandemic have been saving up on several expenses such as travelling, eating out and shopping for formal wear. "Such customers feel they need larger refrigerators, or better quality washing machines or televisions with larger screen sizes," said Braganza. The bulk of Haier's business still comes from offline sales, Braganza said. The festive months of September to November account for 30% of sales for the company. India's festive season started at the end of August with Onam and



Consumer electronics and home appliances, LG Electronics India.

The local arm of South Korean electronics maker LG reported a 30% growth in the 10 days of Navratri compared to the year-ago period. "There is a clear pent-up demand. The same scenario will continue and even go up over the next two weeks till Diwali," said Vijay Babu, vice-president, home appliances, LG Electronics India. Babu said the share of online sales has expanded for LG with an overall appliance companies say the trend will continue till Diwali. "We will continue till mid-November, a little longer than the previous years. For several firms, making large appliances, these months account for 30-40% of their annual business. Mobile phones and electronics continued to lead e-commerce sales this month. Smartphones continued to be the biggest category during online festive sales of Flipkart and Amazon in October, said market research and advisory firm RedSeer.

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 14th Floor, Tower 3, Plot No. 3A, Sector 125, Noida-201 304 (Noida) India
Corporate Office: 14th Floor, Tower 3, Plot No. 3A, Sector 125, Noida-201 304 (Noida) India
Tel: +91 11 26393333
www.hcltech.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(8) of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules 14 of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2015, notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on September 7, 2015, and amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend(s) remain unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years shall be transferred to the IEPF DEMAT Account of the IEPF Authority ("IEPF DEMAT Account") within 30 days from the due date of transfer.

Dividend Particulars	Date Payment of Dividend	Date of completion of seven years (Due Date)	Date of transfer of shares to IEPF DEMAT Account (30 days from Due Date)
Final Dividend (2012-2013)	December 31, 2013	January 29, 2021	February 28, 2021
2nd Interim Dividend (2013-2014)	January 31, 2014	February 14, 2021	March 16, 2021

All benefits accruing on such shares e.g. bonus issue, split, consolidation, fraction shares, etc. except right to issue shall also be credited to the IEPF DEMAT Account. The Company has updated on its website <https://www.hcltech.com/investors/iepf>. Details of the details, including the names and Folio number / DP ID / Client ID of the shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account of the IEPF Authority is also being provided to such shareholders at their latest available addresses with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("STA"). Shareholders may note that both the unpaid/unclaimed dividend(s) and the corresponding shares transferred to the IEPF DEMAT Account in accordance with the prescribed Rules and upon such issue, the original share certificate(s) registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Shareholders may also note that, necessary Corporate Action shall be initiated by the Company to transfer the shares to the IEPF DEMAT Account. The shareholders are requested to write to the Company at HCL Technologies Limited, 14th Floor, Tower 3, Plot No. 3A, Sector 125, Noida-201 304 on or before the due date for making a valid claim for the unpaid/unclaimed dividend(s). In case no valid claim has been made, the said shares will be transferred to IEPF DEMAT Account of the Company as per the procedure stipulated in the Rules. For HCL Technologies Limited
Manish Anand
Company Secretary
HCL

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: 1911, Sector-4, IIT Area, Gurugram, Haryana-122059
CIN: L39991HR1999PLD014175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 6966466, Fax: +91 124 6966650.

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 (1)(c) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of ARCHIES LIMITED ("Company"), will be held on Monday, 9th November, 2020 at 12:23 P.M. Inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

Information in this regard is also available on the website of the Company, www.archiesonline.com and on the website of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.
For Archies Limited
Manish Anand
Company Secretary & Compliance Officer

KENT Health Care PRODUCTS
HOUSE OF PURITY

This Festive Season,
Give Your Loved Ones
The Gift of Good Health.

KENT RO Water Purifiers
To Drink 100% Pure Water

Multiple Purification by RO+UV+UF+TDS Control | Retains Essential Minerals
No Water Wastage | 1 Year Warranty + 3 Years Free* Extended Service

KENT Smart Chef Appliances
To Cook Tasty & Healthy Food

Designed for Smarter Kitchens | Healthy & Tasty Cooking
Restaurant-like Food in Minutes

KENT Home Appliances
To Stay Safe & Protected

Bacteria & Virus Free Fruits & Vegetables
Clean & Healthy Living

The World's Best
Trusted by Millions

Free Demo & Sales Enquiry: 9582-123-456 | Web: www.kent.co.in | Service: 92-789-12345
Shop Online: KENT Shoppers (Shop.Amazon.in), Amazon, Flipkart, etc.

MAX INDIA LIMITED

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020 (Rs. in Crores)

Particulars	Quarter ended 30.09.2020		Quarter ended 30.09.2019		First 9 Months ended 30.09.2020		First 9 Months ended 30.09.2019	
	Actual	Unaudited	Actual	Unaudited	Actual	Unaudited	Actual	Unaudited
1. Total Income from operations (net)	8.48	9.98	74.30	30.86	33.48	214.33	231.61	218.20
2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.38	(1.52)	(7.16)	(18.41)	(27.13)	286.46	273.46	236.46
3. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.38	(1.52)	(120.17)	(18.41)	(27.13)	236.46	273.46	236.46
4. Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.36	(1.86)	(123.28)	(17.30)	(27.82)	231.55	272.82	231.55
5. Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.30	(1.98)	(123.21)	(17.22)	(18.94)	243.00	272.82	243.00
6. Paid-up equity share capital (Face Value: Rs. 10 Per Share)	53.79	53.73	53.79	53.79	53.79	53.79	53.79	53.79
7. Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of previous accounting year			865.38			651.79		
8. Earnings per share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)								
a) Basic (Rs.)	0.07	(0.30)	(22.92)	(3.21)	(3.77)	55.23	55.23	55.23
b) Diluted (Rs.)	0.07	(0.30)	(22.92)	(3.21)	(3.77)	55.23	55.23	55.23
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Note: The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarter and half year ended unaudited financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.maxindia.com).
By Order of the Board
Max India Limited (Formerly Advance Allied Health Services Limited)
Registered Office: Plot-187, Floor 1, Raddi Marg, Max India, Dr. Amal Bhasin Road, World, Mumbai, Maharashtra, India, 400017
Website: www.maxindia.com
Date: October 29, 2020
Place: Gurugram
Mohit Tawar
Managing Director
DIN: 02384954

